

## प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:10-09-2021

### पुलिस मुठभेड के उपरान्त थाना पहासू पुलिस द्वारा लूट/डकैती की योजना बनाते 02 बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 मोटर साइकिल, अवैध असलहा मय कारतूस आदि बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री हरेन्द्र कुमार के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी शिकारपुर श्री सुरेश कुमार के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 10-09-2021 को थाना प्रभारी पहासू श्री मुकेश कुमार मय पुलिस टीम तलाश वांछित व संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर होकर पलडा झाल चौराहे पर आने जाने वाले वाहनों/व्यक्तियों की चैकिंग कर रहे थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ बदमाश फरकना जाने वाले रास्ते पर सड़क किनारे झाडियों की आड में लूट/डकैती की योजना बना रहे हैं जिनके पास अवैध असलहे भी हैं। इस सूचना को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस टीम द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर लूट/डकैती की योजना बना रहे बदमाशों की घेराबन्दी की गयी जिसपर बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जानसे मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर 02 बदमाशो को समय करीब प्रातः 04.25 बजे चोरी की 04 मोटर साइकिलों, अवैध असलहा मय कारतूस आदि सहित गिरफ्तार किया गया। मौके से 03 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गये हैं जिनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

#### गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पते-

1. मौ0 अब्दुल पुत्र शरीफ निवासी मुर्तजाबाद भटवारा थाना खुर्जा देहाता
2. मौ0 नवाब पुत्र इरशाद निवासी उपरोक्त

#### बरामदगी का विवरण-

1. 01 मोटरसाइकिल अपाचे फर्जी नम्बर यूपी-83डी 6949
2. 01 मोटरसाइकिल अपाचे बिना नम्बर, डीएल-7बीबी 8684
3. 01 मोटरसाइकिल प्लेटिना यूपी-81एएल 7314
4. 01 मोटरसाइकिल कावासकी बजाज बिना नम्बर
5. 02 तमंचे 315 बोर, 02 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस
6. 02 मोबाइल, 300/- रुपये नकद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ताला खोलने की मास्टर चाबी

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ पर बताया कि वह अपने गांव के ही फरार साथियों के साथ मिलकर नहर खेड़ा की तरफ जाने वाले लोगों से लूटपाट करने की योजना बना रहे थे तथा यहां सफलता न मिलने पर सुबह बैंक जाकर रेकी करके लूटपाट करने की भी योजना थी। हम लोग लूटपाट अपने आर्थिक एवं जीविकोपार्जन करने के लिए करते हैं। बरामद मोटरसाइकिल के बारे में अभियुक्त अब्दुल उपरोक्त ने बताया कि अपाचे मोटरसाइकिल न0-यूपी-83डी-6949 उसकी है जिसपर ट्रैक्टर की फर्जी नम्बर प्लेट लगा रखी थी। गिरफ्तार अभियुक्त नवाब ने बताया कि दूसरी अपाचे बिना नंबर मोटरसाइकिल उसकी है जिसको फरार साथी मोहसिन कहीं से चोरी कर लाया था। दोनों मोटरसाइकिलों को हम लोग घटनाएं करने में प्रयोग करते हैं। मोटरसाइकिल अपाचे बिना नंबर का नम्बर ई-चालान एप्प पर डीएल-7बीबी-8684 प्रदर्शित हो रहा है। अभियुक्तों द्वारा मोटरसाइकिल प्लेटिना यूपी-81एएल-7314 व मोटरसाइकिल कावासकी बजाज बिना नम्बर को फरार साथियों द्वारा कहीं से चोरी कर लाना बताया है। सभी मोटरसाइकिलों को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पहासू पर मुअसं-356/21 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड), मुअसं-357/21 धारा 399,401,411,420,467,468,471 भादवि एवं मु0अ0सं0-358 से 359/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

- 1- श्री मुकेश कुमार थाना प्रभारी पहासू
- 2- उ0नि0 केदारनाथ राय, उ0नि0 बलवीर सिंह
- 3- है0का0 रविन्द्र सिंह, का0 रोहित कुमार, रि0का0 अजय कुमार